



08 अप्रैल 2024

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- विश्व बैंक का अनुमान है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा निर्यात ने अभूतपूर्व ऊंचाई दर्ज की है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ से अधिक हो गया है।
- वित्त वर्ष-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1,039 मिलियन टन हुआ है: कोयला मंत्रालय।
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, 2023-24 सीजन में सरसों का उत्पादन 12 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है।
- वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन फरवरी 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 148.8 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 143.6 मिलियन टन था: विश्व इस्पात संघ।
- मार्च में ब्राजीलियाई सोयाबीन का निर्यात 13.2 मिलियन टन से 4.6% कम होकर 12.6 मिलियन टन रहा।
- दक्षिण भारतीय जलाशयों में भंडारण क्षमता का 20% तक गिर गया। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में लगातार 26वें हफ्ते पानी घटा; आंध्रप्रदेश के जलाशयों में जल स्तर सामान्य से 75% नीचे है।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले 2023-24 खरीफ विपणन सीजन के बाद 31 मार्च तक 45.44 मिलियन टन तक पहुंच गई। यह एक साल पहले खरीदे गए 49.01 मिलियन टन से 7.3 प्रतिशत कम है।
- इंटेलिजेंस फर्म वोटेंक्सा के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च में भारत ने प्रति दिन कुल 1.28 मिलियन बैरल रिफाइनड तेल उत्पादों का निर्यात किया, जो पिछले महीने से 12.5% कम है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.03.24	04.04.24	बदलाव (%)
मक्का	2210.00	2307.00	4.39%
ग्वारगम	10072.00	10471.00	3.96%
स्टील	41880.00	43520.00	3.92%
धनिया	7608.00	7894.00	3.76%
जीरा	23600.00	24450.00	3.60%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.03.24	04.04.24	बदलाव (%)
हल्दी	17138.00	16786.00	-2.05%
सीसेमसीड	15570.00	15350.00	-1.41%
जौ	1965.00	1958.50	-0.33%
कैस्टर ऑयल	1224.50	1223.00	-0.12%
कपास	1519.50	1519.00	-0.03%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.03.24	04.04.24	बदलाव (%)
जिंक	216.95	233.65	7.70%
एल्युमीनियम	208.70	222.85	6.78%
चांदी	75048.00	79984.00	6.58%
तांबा	760.65	803.15	5.59%
सोना पेटल	6571.00	6855.00	4.32%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.03.24	04.04.24	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	926.00	922.60	-0.37%

साप्ताहिक समीक्षा

इस सप्ताह कमोडिटी बाजारों में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला, जिसने एक अमित छाप छोड़ी। कुल मिलाकर, कमोडिटीज में इस सप्ताह की तेजी ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी, जिसमें कीमती धातुओं और औद्योगिक कमोडिटी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पूरे कमोडिटी स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला सीआरबी इंडेक्स 340 से ऊपर बंद हुआ। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने ने रिकॉर्ड क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी जारी रखी। इसी क्रम में चांदी की कीमतों में भी उछाल दर्ज की गई और यह 80,000 अंक के करीब पहुंच गई। तीन सप्ताह में सोने की कीमतों ने 65,500 से 70,000 तक तेजी दर्ज करते हुए मील का पत्थर चिह्नित किया, जिसमें कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों में सोने की कीमतें क्रमशः 2312 डॉलर और 69,918 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। चांदी इसी तरह कॉमेक्स और एमसीएक्स पर 27.5 डॉलर और 79,500 के स्तर को पार कर गई। बेस मेटल और ऊर्जा कमोडिटीज में भी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष आयातक चीन को लेकर बढ़ती उम्मीदों से तांबे की कीमतें 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि देश के सबसे बड़े रिफाइनर द्वारा उत्पादन में संभावित कटौती के कारण आपूर्ति में कमी की आशंका बढ़ गई। चीन की पीएमआई फैंक्ट्री गतिविधि में सुधार से तांबे की कीमतों को मदद मिली। एक महीने के भीतर कच्चे तेल की कीमतें 6,350 से बढ़कर 7,200 हो गई, जबकि एल्युमीनियम की कीमतें छह सप्ताह में 198 से 220 तक बढ़ीं। मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद नेचुरल गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। तेल की कीमतें पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे हालिया बढ़त में तेजी आई, क्योंकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिति खराब होने की संभावना ने आपूर्ति में और अधिक व्यवधान उत्पन्न किए। ओपेक+ ने भी बुधवार की बैठक के दौरान उत्पादन कटौती के अपने मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए मतदान किया, जिससे निकट अवधि में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी की संभावना है।

कृषि कमोडिटीज की बात करें तो, अरंडी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह सुधार हुआ है। कीमतों में हाल ही में बढ़त के साथ पेराई के लिए मांग धीमी हो गई है। सूरजमुखी तेल की कीमतों में दो सप्ताह के निचले स्तर से उछाल आया। चार सप्ताह के बाद कपास की कीमतों में गिरावट का रुख अस्थायी रूप से रुक गया, जबकि कॉटन की कीमतें मामूली बढ़त के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 336.60 लाख गांठ के मुकाबले 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। 27 मार्च को लगभग 64 हजार गांठ की आवक हुई, जबकि वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आवक 246 लाख गांठ बताई गई है। निर्यात पूछताछ में सुधार के कारण ग्वार बाजार में नयी खरीदारी देखी गई। प्रचलित दर पर ग्वारगम की मांग बढ़ी है जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। मसालों के क्षेत्र में, जीरा और धनिया दोनों की कीमतों में तीन सप्ताह की गिरावट के बाद तेजी दर्ज की गई जबकि हल्दी की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट जारी रही। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। निर्यात में गिरावट का कारण गुणवत्तापूर्ण उपज की सीमित उपलब्धता और ऊंची कीमतें हो सकती हैं। घटती आपूर्ति और आगामी सीजन के लिए कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मेंथा की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	28.03.2024	04.04.2024	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2,047.00	2,041.00	-0.29%
चना	दिल्ली	5700.90	5890.85	3.33%
धनिया	कोटा	7745.25	7927.50	2.35%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	902.75	956.60	5.97%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1444.55	1453.55	0.62%
ग्वारसीड	जोधपुर	5158.75	5337.50	3.46%
ग्वारगम	जोधपुर	10,122.15	10,614.80	4.87%
जीरा	ऊझा	25906.70	24998.70	-3.50%
सरसों	जयपुर	5450.60	5503.90	0.98%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	945.00	990.00	4.76%
सोयाबीन	इंदौर	4678.15	4803.95	2.69%
हल्दी	निजामाबाद	16658.90	16395.90	-1.58%
गेहूं	दिल्ली	2540.00	2528.95	-0.44%
काँटन	कड़ी	29042.45	29281.50	0.82%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2673.95	2721.15	1.77%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	28.03.2024	04.04.2024	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2337.00	2444.50	4.60%
तांबा	LME	नकद	8867.00	9359.00	5.55%
लेड	LME	नकद	2055.00	2139.00	4.09%
निकल	LME	नकद	16749.00	17711.00	5.74%
जिंक	LME	नकद	2439.00	2645.50	8.47%
सोना	COMEX	जून	2238.40	2308.50	3.13%
चांदी	COMEX	मई	24.92	27.25	9.36%
लाइट क्रूड	NYMEX	मई	83.17	86.59	4.11%
नेचुरल गैस	NYMEX	मई	1.76	1.77	0.62%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	28.03.2024	04.04.2024	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	मई	1,191.50	1,180.00	-0.97%
सोया तेल	CBOT	मई	47.95	48.15	0.42%
काँटन	ICE	मई	91.38	87.14	-4.64%
सीपीओ	BMD	जून	4,136.00	4,400.00	6.38%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	27.03.2024 क्वांटिटी	04.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
काँटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	221	221	0
कैस्टर सीड	मी.टन	2207	2097	-110
धनिया	मी.टन	198	1351	1153
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	65177	66564	1387
ग्वारगम	मी.टन	20507	19090	-1417
ग्वारसीड	मी.टन	30095	28799	-1296
जीरा	मी.टन	0	0	0
स्टील	मी.टन	220	200	-20

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	28.03.2024 क्वांटिटी	04.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1539	1184	-355
तांबा	मी.टन	1405745	939594	-466151
सोना	किग्रा	327	434	107
सोना मिनी	किग्रा	3984	1776	-2208
सोना गिनी	किग्रा	60900	54300	-6600
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	335883	332376	-3507
चांदी एम	किग्रा	49553	49553	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 28.03.2024	स्टॉक की स्थिति 04.04.2024	अंतर
एल्युमीनियम	551400	536850	-14550.00
तांबा	111925	112525	600.00
निकल	77772	77748	-24.00
लेड	273425	274525	1100.00
जिंक	270525	261975	-8550.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कांटेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	24450.00	14.03.24	मंदी	25000.00	-	25110.00	25150.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	16786.00	14.03.24	मंदी	18500.00	-	18190.00	18250.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5273.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5130.00	-	5100.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6081.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5770.00	-	5750.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	अप्रैल	877.70	06.03.24	तेजी	845.00	830.00	-	825.00
NCDEX	स्टील लांग	अप्रैल	43520.00	03.04.24	तेजी	42700.00	41300.00	-	41200.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2576.00	26.03.24	मंदी	2600.00	-	2675.00	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	922.60	27.09.23	मंदी	960.00	-	945.00	950.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	17685.00	04.03.24	तेजी	16600.00	17050.00	-	17000.00
MCX	चांदी	मई	79984.00	04.03.24	तेजी	72200.00	75300.00	-	75200.00
MCX	सोना	जून	69707.00	04.03.24	तेजी	64000.00	67600.00	-	67500.00
MCX	तांबा	अप्रैल	803.15	06.03.24	तेजी	730.00	754.00	-	750.00
MCX	लेड	अप्रैल	185.85	06.03.24	तेजी	179.00	176.00	-	175.00
MCX	जिंक	अप्रैल	233.65	06.03.24	तेजी	218.00	216.00	-	215.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	222.85	04.03.24	तेजी	202.00	211.00	-	210.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	7123.00	13.03.24	तेजी	6500.00	6830.00	-	6800.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	149.50	18.01.24	मंदी	235.00	-	177.50	178.00

*04/04/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मॉनिंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

जिंक (अप्रैल) एमसीएक्स



जिंक (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 234.45

निचला स्तर: 212.40

एमसीएक्स में जिंक (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 04 अप्रैल 2024 को 233.70 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 221.75 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 70.33 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

225.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 255.00 ₹ के टारगेट के लिए 235.00 ₹ के ऊपर खरीददारी की जा सकती है।

नेचुरल गैस (अप्रैल) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 193.80

निचला स्तर: 142.00

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 04 अप्रैल 2024 को 149.50 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 153.78 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 44.022 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

159.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 140.00 ₹ के टारगेट के लिए 153.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 5458.00

निचला स्तर: 5118.00

एमसीएक्स में कैस्टरसीड (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 04 अप्रैल 2024 को 5355.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5303.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 59.951 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5250.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5700.00 ₹ के टारगेट के लिए 5400.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

स्टॉकिस्टों की बढ़ती खरीदारी के कारण पिछले सप्ताह के दौरान हल्दी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2024 में कम उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में आवक की गति धीमी रही है। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 14% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। मुख्य ध्यान चल रही कटाई गतिविधियों पर होगा, जो आगे शुष्क मौसम की स्थिति के मद्देनजर बढ़ने की संभावना है। हाल के सप्ताह में आपूर्ति सामान्य से कम रही है जिससे बाजार के सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला और खरीदार सक्रिय खरीदारी में व्यस्त रहे। मौजूदा आपूर्ति में कमी के कारण स्टॉकिस्ट कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन, हाल के महीनों में निराशाजनक निर्यात की रिपोर्ट से अत्यधिक बढ़त पर रोक लगने की संभावना है क्योंकि जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। हल्दी की कीमतों के 15300-18500 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

सप्लाई बढ़ने की संभावना के साथ जीरा वायदा में गिरावट हुई। बंपर उत्पादन की संभावनाओं और नई फसल के शुरू होने से बाजार के सेंटिमेंट पर असर पड़ा। गुजरात और राजस्थान में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण कटाई गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। स्टॉकिस्टों की सक्रिय खरीदारी के बीच बेहतर निर्यात संभावनाओं के कारण गिरावट सीमित होने की संभावना है। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन के कारण वैश्विक आपूर्ति कम हो गई है, जिससे हाल के महीनों में भारतीय जीरा निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। वर्ष 2024 में भारत में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। जीरा की कीमतों के 21500-30000 के बीच कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू खरीदारी बढ़ने से धनिया की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कमजोर उत्पादन अनुमान के मद्देनजर भौतिक मांग में सुधार हुआ। मजबूत निर्यात मांग के कारण भी कीमतों के तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद मिली। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। कमजोर आपूर्ति की आशंका के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि रकबा और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आवक बढ़ने की उम्मीद है। धनिया की कीमतें 7500-8400 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

अन्य कमोडिटीज

मांग संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। स्पनिंग मार्जिन और निर्यात में गिरावट के कारण मांग कम रही, जिससे कटाई मिलें और धागा मिलें थोक खरीदारी से दूर रही आईसीई में कॉटन की कीमतों में कमजोरी से भी कीमतों पर दबाव है। यूएसडीए की संभावित रोपण रिपोर्ट के अनुसार फसल वर्ष 2024 में 10.7 मिलियन एकड़ का कपास बोया गया है जो 2023 की तुलना में 4% अधिक है। घरेलू मोचों पर, घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। दैनिक आवक घटकर 58000 गांठ रह गई, जबकि 4 अप्रैल को कुल आवक 250.5 लाख गांठ बताई गई थी। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि लगभग 70%-75% वर्ष 2023-24 में अब तक बाजार में आवक समाप्त हो गई है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों को 59800-63500 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास अप्रैल-24 वायदा की कीमतों के 1585-1590 के स्तर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आपूर्ति की कमी के बीच बेहतर मांग के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2470-2680 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। कम उत्पादन के कारण हाल के सप्ताहों में आवक की गति धीमी रही है। लेकिन, स्टॉकिस्टों और मिल मालिकों के पास भारी स्टॉक के कारण बढ़त सीमित रही। वर्ष 2023-24 में ग्वारसीड का कुल उत्पादन साल-दर-साल 11%-13% घटकर 10.7 लाख टन रह गया है। पेराई मार्जिन में सुधार हुआ है जिससे ग्वारगम की पेराई मांग में वृद्धि होगी। आवक कम है जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ग्वारगम के बढ़ते निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। जनवरी-24 में ग्वारगम का निर्यात सालाना 30% बढ़कर 20.05 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 4950 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रेंजिस्टेंस 5700 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 9800 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रेंजिस्टेंस 11300 पर देखा जा सकता है।

आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण मेंथा तेल की कीमतों में मजबूती के साथ कारोबार होने की संभावना है। कम रकबे के कारण कमजोर उत्पादन अनुमान से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। लेकिन भारत से मेन्थॉल और मेंथा ऑयल के निर्यात में गिरावट के कारण बढ़त सीमित रहने की संभावना है। मेंथा ऑयल की कीमतों को 895 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 960 के स्तर पर रेंजिस्टेंस रह सकता है।

अरंडीमील की कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी की पेराई मांग कम होने से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। कैस्टर सीड की कीमतों के 5800-6100 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पाफा

फंडेडल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और केंद्रीय बैंकों की ओर से निरंतर मांग के कारण सोने की कीमतों में लगातार तीन हफ्ते बढ़त दर्ज की गई और कोमते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। फरवरी के मध्य से, सोने की कीमतें बढ़त दर्ज कर रही हैं और हर दिन रिकॉर्ड बना रही हैं क्योंकि निवेशकों को फंड की नीति में संभावित बदलाव से कीमतों में बढ़त की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, मध्य पूर्व और यूक्रेन में बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के साथ-साथ निरंतर केंद्रीय बैंक खरीद ने सर्पाफा को और अधिक समर्थन प्रदान किया है। चीन, भारत और जाकारिस्तान से उल्लेखनीय खरीदारी के साथ, केंद्रीय बैंकों ने फरवरी में अपनी सोने की होल्डिंग में वृद्धि जारी रखी, जो लगातार नौवें महीने खरीददारी है। फंड चेंबर पॉवल ने इस साल के अंत में बाजार की उम्मीदों के अनुरूप ब्याज दरों में कमी की संभावना का संकेत दिया, जिससे जून में दरो में कटौती की 62% संभावना है। कम ब्याज दरें सोना रखने की अवसर लागत को कम कर देती हैं। आने वाले महीनों में मजबूत अमेरिकी डॉलर की उम्मीदों के बावजूद, रूस के वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा और सोने की अपनी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बनाई है। हेज फंडों ने स्टॉक, कमोडिटी और डॉलर में तेजी का लाभ उठाते हुए विभिन्न रणनीतियों में लाभ के साथ पहली तिमाही का समापन किया। उम्मीद है कि जिम्बाब्वे में कैलेडोनिया माइनिंग कॉर्पोरेशन की प्रस्तावित 250 मिलियन डॉलर की सोने की खदान के लिए अफ्रीकी विकास बैंक प्राथमिक वित्तपोषक होंगे। कॉमेक्स पर, सोने की कीमतों को 2310 डॉलर के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके ऊपर जाने पर 2380 डॉलर की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि निकट अवधि में सपोर्ट 2240 डॉलर के करीब देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें 27.50 डॉलर के करीब रेंजिस्टेंस का सामना कर रही हैं, और इस स्तर को पार करने पर 28.50 डॉलर की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि सपोर्ट 24.00 के करीब बना हुआ है। आने वाले सप्ताह में एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 67800-71300 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि चांदी 76800-82000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी और आर्थिक सुधारों के बीच वैश्विक स्तर पर ईंधन की मांग में वृद्धि को लेकर उम्मीदों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। दोनों बेंचमार्क अवटूर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। नाटो अधिकारी के अनुसार, रूसी रिफाइनरियों पर चल रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने कथित तौर पर रूस की 15% से अधिक ईंधन क्षमता को बाधित कर दिया है। ओपेक+ ने अपनी तेल आपूर्ति नीति को अपरिवर्तित बनाए रखा और कुछ देशों से उत्पादन में कटौती के अनुपालन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्यात में कटौती के बाद वैश्विक स्तर पर भारी तेल की आपूर्ति कम हो गई है। ईरान ने सीरिया में दूतावास परिसर पर हमले के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया। लेकिन इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास परिसर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मांग पक्ष पर, मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने दुनिया के अग्रणी तेल उपभोक्ता के लिए संभावनाओं को बढ़ावा दिया। आगामी दिनों में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है, और कीमतों के 6850-7380 के दायरे में कारोबार करने का अनुमान है, और गिरावट पर खरीदारी की सलाह दी जाती है। नेचुरल गैस बाजार में, कीमतों में साइडवेज कारोबार हुआ क्योंकि व्यापारियों ने एक संघीय रिपोर्ट से दिशा-निर्देश का इंतजार किया, जिसमें सामान्य से अधिक टंडे मौसम के बीच बढ़ती हीटिंग मांग के कारण पिछले सप्ताह सामान्य से अधिक भंडारण निकासी का अनुमान लगाया गया है। हल्के मौसम और भंडारण में गैस की कमी के पूर्वानुमान के बावजूद, कीमतें अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहीं। पूर्वानुमानों से एलएनजी निर्यात संयंत्रों की बढ़ती मांग का संकेत मिलता है, जिससे संभावित रूप से कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विज्ञानियों ने अनुमान लगाया है कि 8-19 अप्रैल तक सामान्य से अधिक गर्म होने से पहले निचले 48 राज्यों में मौसम सामान्य से अधिक ठंडा रहेगा। गैस की कीमतें 142-158 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

बढ़ते आपूर्ति जोखिम, वैश्विक स्तर पर मांग में सुधार की उम्मीद और कमजोर डॉलर के कारण बेस मेटल की कीमतें कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। वैश्विक मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि की वापसी के अस्थायी संकेत यह उम्मीद जगा रहे हैं कि बाजार की स्थिति सख्त होने से बेस मेटल की कीमतों को मदद मिल सकती है। लेकिन, उच्च स्तर पर मुनाफावसूली से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन में बेस मेटल के एक प्रमुख उपभोक्ता, प्रॉपर्टी क्षेत्र में कमजोरी अभी भी चिंता का विषय है, जनवरी-फरवरी की अवधि में प्रॉपर्टी क्षेत्र की बिक्री एक साल पहले की तुलना में 20.5% कम हो गई है जो दिसंबर में दर्ज की गई 23.0% की गिरावट की तुलना में थोड़ा ही बेहतर है। आपूर्ति को लेकर, इस बारे में संदेह बना हुआ है कि क्या चीनी स्मेल्टर उत्पादन में सार्थक कटौती करेंगे, लेकिन दुनिया भर की खदानों में उत्पादन जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए गिरावट पर खरीदारी सबसे अच्छी रणनीति होगी। तांबे की कीमतें 770-815 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के बीच सामान्य से अधिक रखरखाव के कारण मार्च से अप्रैल तक रिफाईंड तांबे का उत्पादन कम होने की उम्मीद है। तांबे की मांग में मौसमी बढ़ोतरी के कारण कीमतों को समर्थन मिलेगा। जिंक की कीमतें 220-245 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लोड की कीमतें 180-191 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। नेक्सा रिसोर्सेज ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 1 मई से ब्राजील में अपनी मोरो अगुडो लोड खदान में उत्पादन निलंबित कर देगा, जिससे आपूर्ति संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। एल्युमीनियम की कीमतें 215-228 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। ख मॉन्टेफुस्को ने सूखा प्रभावित युन्नान प्रांत में 500,000 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन बहाल करने वाले एल्युमीनियम स्मेल्टरों की गति के बारे में बाजार की चिंताओं का हवाला दिया, क्योंकि शुष्क मौसम जलविद्युत आपूर्ति को प्रतिबंधित करना जारी रखता है। स्टील लॉन्ग (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 42800-44200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

ओपेक+ द्वारा उत्पादन में कटौती..... बाजार को अतिरिक्त समर्थन

सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में ओपेक+ के सदस्यों ने 03 अप्रैल, 2024 को वैश्विक विकास और समूह के बाहर बढ़ते उत्पादन को लेकर चिंताओं के बीच बाजार को अतिरिक्त समर्थन देते हुए, दूसरी तिमाही में प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल की स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य गैर-सदस्य उत्पादकों के बढ़ते उत्पादन और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के उच्च ब्याज दरों से जूझने के कारण मांग पर चिंताओं के बीच बाजार को समर्थन देने के लिए ओपेक+ ने 2022 के अंत से उत्पादन में कटौती की एक श्रृंखला लागू की है।

अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती की मात्रा

ओपेक+ ने नवंबर में पहली तिमाही के लिए लगभग 2.2 मिलियन बैरल/दिन की कुल स्वैच्छिक कटौती पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब ने जुलाई में पहली बार की गई कटौती के साथ किया था।

पेट्रोलीयम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के वास्तविक नेता सऊदी अरब ने कहा कि वह जून के अंत तक प्रति दिन 1 मिलियन बैरल की अपनी स्वैच्छिक कटौती को बढ़ाएगा, जिससे इसका उत्पादन लगभग 9 मिलियन बैरल/दिन रह जाएगा।

रूस, जो ओपेक सहयोगियों को नेतृत्व करता है जिसे सामूहिक रूप से ओपेक+ के रूप में जाना जाता है, दूसरी तिमाही में तेल उत्पादन और निर्यात में अतिरिक्त 471,000 बैरल/दिन की कटौती करेगा जो अलग-अलग अनुपात में होगा। अप्रैल में प्रतिदिन 350 हजार बैरल उत्पादन और 121 हजार बैरल प्रतिदिन निर्यात में कटौती होगी। मई में प्रतिदिन 400 हजार बैरल उत्पादन से और 71 हजार बैरल प्रतिदिन निर्यात में कटौती होगी। जून में 471 हजार बैरल प्रतिदिन पूर्णतः उत्पादन से कटौती होगी। रूस की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती अप्रैल 2023 में पहले घोषित प्रति दिन 500 हजार बैरल की स्वैच्छिक कटौती के अतिरिक्त है, जो दिसंबर 2024 के अंत तक जारी रह सकती है।

ओपेक के तीन उत्पादकों ने अलग-अलग बयानों में कहा कि दूसरी तिमाही के लिए, इराक अपने उत्पादन में 220,000 बैरल/दिन की कटौती को बढ़ाएगा, यूई अपने 163,000 बैरल/दिन उत्पादन कटौती को बरकरार रखेगा और कुवैत अपने 135,000 बैरल/दिन उत्पादन कटौती को बरकरार रखेगा। अल्जीरिया ने यह भी कहा कि वह 51,000 बैरल/दिन और ओमान 42,000 बैरल/दिन की कटौती करेगा। कजाकिस्तान ने कहा कि वह 82,000 बैरल/दिन की अपनी स्वैच्छिक कटौती को दूसरी तिमाही तक बढ़ाएगा। बाद में, बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के लिए, इन स्वैच्छिक कटौती को बाजार की स्थितियों को देखते हुए धीरे-धीरे बहाल कर दिया जाएगा।


रॉयटर्स की गणना के अनुसार, 2022 से ओपेक+ द्वारा प्रस्तावित कुल कटौती लगभग 5.86 मिलियन बैरल/दिन है, जो विश्व स्तर पर दैनिक मांग के लगभग 5.7% के बराबर है।

लेकिन, ओपेक+ कोटा स्तरों का अनुपालन अभी भी एक मुद्दा है। ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण के अनुसार, ओपेक के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक इराक ने पिछले महीने 4.17 मिलियन बैरल/दिन का उत्पादन किया, जो फरवरी की तुलना में 30,000 बैरल/दिन कम है। यह अभी भी कोटा स्तर से लगभग 170,000 बैरल/दिन अधिक है, लेकिन इसने क्षतिपूर्ति के लिए प्रवाह पर लगाम लगाने का वादा किया है। हाल ही में रूसी निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

तेल की मांग का आउटलुक

इस वर्ष तेल की मांग का अनुमान अनिश्चित है। ओपेक को एक अन्य वर्ष में एशिया के नेतृत्व में 2.25 मिलियन बैरल/दिन की अपेक्षाकृत अधिक मांग वृद्धि की उम्मीद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 1.22 मिलियन बैरल/दिन की धीमी वृद्धि की उम्मीद है।

आईईए को यह भी उम्मीद है कि इस साल तेल की आपूर्ति लगभग 103.8 मिलियन बैरल/दिन की रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ जाएगी, जो लगभग पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और गुयाना सहित ओपेक+ के बाहर के उत्पादकों द्वारा संचालित है।



स्रोत: ओपेक



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।